




एंटी-डंपिंग प्रोब

स्रोत: [इकोनॉमिक टाइम्स](#)

हाल ही में भारत ने चीन और जापान से रबर उद्योग में इस्तेमाल होने वाले 'अघुलनशील सल्फर' के आयात की डंपिंग रोधी जाँच शुरू की है।

- व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) एंटी-डंपिंग, काउंटरवेलिंग शुल्क और सुरक्षा उपायों सहित सभी व्यापार उपचारात्मक उपायों को प्रशासित करने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत शीर्ष राष्ट्रीय प्राधिकरण है।
 - यह घरेलू उद्योगों और निर्यातकों को वदिशों द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई व्यापार संबंधी जाँच का जवाब देने में सहायता प्रदान करता है, जिससे इन्हें व्यापार सुरक्षा सहायता मिलती है।

1. WTO Framework on Trade Remedies

	 Global Safeguards	 Anti-Dumping measures	 Countervailing Duties
Legal Basis	<ul style="list-style-type: none"> • GATT Article XIX 	<ul style="list-style-type: none"> • GATT Article VI • Agreement on Implementation of Article VI (AD Agreement) 	<ul style="list-style-type: none"> • WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
Objectives and Features	<ul style="list-style-type: none"> • Create “breathing room” for domestic industry struggling with increasing imports • MFN based import restrictions • No allegations about unfair trade 	<ul style="list-style-type: none"> • Protect domestic industry from imports sold “at less than the normal value of the products” • Departure from MFN principle • It’s about the “unfair” (pricing) practices of individual firms 	<ul style="list-style-type: none"> • Protect domestic industry from effects of another country’s export subsidies actions • Departure from MFN principle • It’s about the “unfair” (subsidies) practices of governments
Measures	<ul style="list-style-type: none"> • Supplementary tariffs beyond bound MFN rates 	<ul style="list-style-type: none"> • Supplementary tariff beyond bound MFN rates targeted at particular foreign firms based on difference between the import price and the “normal” value 	<ul style="list-style-type: none"> • Supplementary tariff beyond bound MFN rates based on the value of the subsidy provided by the government of the exporting country
Criteria	<ul style="list-style-type: none"> • Imports must be rising (absolute) • Imports are causing “serious” injury to the domestic industry 	<ul style="list-style-type: none"> • Dumping, thus pricing below (1) production cost or (2) market price • Imports are causing “material” injury to the domestic industry 	<ul style="list-style-type: none"> • Specific subsidies (financial contribution) by foreign governments that are exported • Imports are causing “material” injury to the domestic industry

